



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 349]
No. 349]

नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 28, 1981/कार्तिक 6, 1903
NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 28, 1981/ KARTIKA 6, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 अक्तूबर, 1981

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सां० कां० निं० 567(अ).—केन्द्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 1981 (1981 का 16) की धारा 49 की उपधारा (4) के साथ पठित केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे की सारणी के स्तम्भ (1) में वर्णित और केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की पहली अनुसूची की सूद सं० 1 की उपसूच (1) के अन्तर्गत आने वाली चीनी को उस पर उच्चगृहीत उत्तरे उत्पाद शुल्क से छूट देनी है, जितना उक्त सारणी के स्तम्भ (2) और (3) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट है।

सारणी

चीनी का वर्णन	उत्पाद-शुल्क और विशेष	उत्पाद-शुल्क
	मुक्त विक्रय चीनी	लेवी चीनी

28 अक्तूबर, 1981 से प्रारम्भ होने वाली और 30 नवम्बर, 1981 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान कारखाने में उत्पादित चीनी, जो चीनी वर्ष, 1980-81 की तत्संबंधी अवधि के दौरान हुए उत्पाद में अधिक है।

परन्तु उक्त सारणी के स्तम्भ (2) या स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट छूट की रकम, यथास्थिति, खुले बाजार में विक्रय के लिये चीनी या लेवी चीनी पर संबंध उत्पाद-शुल्क और विशेष उत्पाद-शुल्क की रकम से अधिक नहीं होगी।

स्पष्टीकरण : इस अधिसूचना में—

(क) खुले बाजार में विक्रय के लिये चीनी में लेवी चीनी में मिला चीनी अभिप्रेत है।

(ख) "लेवी चीनी" से आरम्भ 6 वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 की उपधारा (2) के खण्ड (ब) के अधीन किये गये आदेश के अधीन विप्रेत किये जाने के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रेषित चीनी अभिप्रेत है।

(ग) "चीनी वर्ष" से 1 अक्तूबर की आरम्भ होने वाले और आगामी 30 नवम्बर को समाप्त होने वाले बारह मास की अवधि अभिप्रेत है।

2. उक्त सारणी के स्तम्भ (1) में वर्णित अवधि के दौरान उसमें वर्णित कारखाने के संबंध में चीनी के उत्पादन की संगणना करने में,

(i) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के परिशिष्ट 1 में विनिर्दिष्ट प्रारंभ और जी 1 में या ऐसे अन्य अभिलेख में, जिसकी कलक्टर उक्त निशानों के नियम 53 या नियम 173-छ के अधीन प्रपक्षा करे, दिया गया डाटा अपनाया जायेगा:—

(ii) शुद्ध या खण्डकारी चीनी को परिष्कृत करने में अभिप्राप्त चीनी हिसाब में नहीं ली जायेगी;

(iii) किसी पूर्ववर्ती चीनी वर्ष की समाप्ति पर प्रसंस्करण में चीनी गृह में छूटे हुए उत्पादों के पुनः प्रसंस्करण में अभिप्राप्त चीनी हिसाब में ली जायेगी; और

(iv) खराब या क्षतिग्रस्त या भूरी चीनी के पुनः प्रसंस्करण में अभिप्राप्त कोई चीनी, यदि उत्पादित चीनी के परिणाम में उसे पहले ही सम्मिलित किया गया है तो, हिसाब में नहीं ली जायेगी।

3. इस अधिसूचना की कोई बात किसी ऐसे चीनी कारखाने की लागू नहीं होगी जिसमें पूर्ववर्ती चीनी वर्ष के दौरान, उक्त सारणों के स्तम्भ (1) में उल्लिखित अवधि में उत्पादन शुरू था।

[सं० 173/81-सी ई/का० सं० 14/43/81-सी एक्स 1]

अ.र. देव, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th October, 1981

CENTRAL EXCISES

G.S.R. 567(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944 read with sub-section (4) of section 49 of Finance Act, 1981 (16 of 1981) the Central Government hereby exempts sugar, described in column (1) of the Table below and falling under sub-item (1) of item No. 1 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), from so much of the duty of excise leviable thereon as is specified in the corresponding entry in column (2) and (3) of the said Table.

TABLE

Description of Sugar	Duty of excise and special duty of excise	
	Free sale sugar	levy sugar
1	2	3
Sugar produced in a factory during the period commencing on the 28th day of October, 1981, and ending with the 30th day of November, 1981, which is in excess of the production during the corresponding period of 1980-81 sugar year.	Rs. 23.55 per quintal	Rs. 15.30 per quintal.

Provided that the amount of exemption in column (2) or (3) of the said Table shall not exceed the amount of duty of excise and special duty of excise payable on the free sale or levy sugar, as the case may be.

EXPLANATION

1. In this notification --

- "free sale sugar" means sugar other than levy sugar;
- "levy sugar" means sugar required by the Central Government to be sold under an order made under clause (f) of sub-section (2) of section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955);
- "Sugar year" means the period of twelve months commencing on the 1st day of October and ending with the 30th day of September next following.

2. In computing the production of sugar during the period mentioned in column (1) of the said Table in respect of a factory mentioned therein,—

- the data, as furnished in Form R.G. 1 specified in Appendix 1 to the Central Excise Rules, 1944 or in such other record as the Collector may require under rule 53 or rule 173-G of the said Rules, shall be adopted;
- any sugar obtained by refining gur or khandsari sugar shall not be taken into account;
- any sugar obtained by reprocessing of sugar house products left over in process at the end of any preceding sugar year shall be taken into account;
- any sugar obtained by reprocessing of defective or damaged sugar or brown sugar, if the same has already been included in the quantity of sugar produced, shall not be taken into account.

3. Nothing contained in this notification shall apply to a sugar factory where production during the period mentioned in column (1) of the said Table, during the preceding sugar year was nil.

[No. 173/81-CE/F. No. 14/43/81-CX.I]

R. DEB, Under Secy.